

## जरूरतमन्दों को बांटा गया मास्क

May 19, 2020 | 1 minute read



**लखनऊ** : वैश्विक महामारी कोरोना अभी अधिकांश देशों में अपना दंश फैला रखा है। भारत वर्ष में संक्रमण की संख्या दिनोदिन बढ़ती जा रही है जो लगभग एक लाख पहुंच गयी है। यद्यपि उनके ठीक होने की संख्या जो 36,824 है, और देशों की अपेक्षा इनका प्रतिशत अधिक है तथा मृत्यु दर भी बहुत कम है, जो मात्र आजतक 3,029 है। अभी भी मजदूरों का दूसरे प्रदेशों से पैदल चलकर अपने निवास वापस जाने का सिलसिला कदाचित थमा नहीं है, बल्कि बढ़ गया है। ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री ने दो-सप्ताह के लिये लाकडाउन-4.0 पूरे देश में लागू कर दिया है। परंतु देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुये कुछ क्षेत्रों में ढील दी गयी है और विशेष रूप से अन्य बिंदुओं पर प्रदेश को स्वयं को परिस्थिति के अनुरूप निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। सम्पूर्ण देशवासी संकट की ऐसी घड़ी में एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने को कृतसंकल्प हैं।



प्रदेश की योगी सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिये हरसम्भव प्रयास कर रही है तथा मजदूरों को रोजगार देने के अवसर तथा अन्य प्रदेशों में फंसे मजदूरों को वापस लाने का सार्थक प्रयास कर रही है। इनमें तमाम समाजसेवी संस्थाएं, संगठन अपने स्तर से भी बड़ी तल्लीनता से सेवाभाव में जुटी हुई हैं। इसी क्रम में गोमतीनगर जनकल्याण महासमिति के तत्वाधान में, नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन (गोपाल जी) के सहयोग से प्राप्त 100 कपडे के मास्क को विराम खण्ड-5 के आसपास मौजूद गरीब व बेसहारा लोगों को वितरण किया गया। इस अवसर पर विराम खण्ड-5 जनकल्याण समिति के पदाधिकारीगण आर.एस. मिश्रा, सचिव तथा डा.भरत राज सिंह, पर्यावरणविद व सलाहकार और प्रचार सचिव, एस.बी.एल. मल्होत्रा, सहायक सचिव आदि उपस्थित रहे।